



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2006/पौष 19, 1927

No. 9]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2006/PAUSA 19, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

• नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2006

सा.का.नि. 9(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय कर अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2005 होगा;

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में यदि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कर्मचारियों" से अधिकरण के कर्मचारी अभिप्रेत हैं,

(ख) "अधिकारियों" से अधिकरण के अधिकारी अभिप्रेत हैं।

(ग) "अधिकरण" से राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन स्थापित किया गया राष्ट्रीय कर अधिकरण अभिप्रेत है।

3. अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी.— अधिकरण के अधिकारियों की प्रकृति और प्रवर्ग तथा उनके वेतनमान इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में दिए गए अनुसार होंगे।

4. सेवा की शर्तें.—अधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन, भत्ते, छुट्टी, कार्यग्रहण समय, कार्यग्रहण समय वेतन, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ,

चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सेवा शर्तें उन्हीं नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी जो उसी स्थान पर तैनात समान वेतनमानों में कार्यरत—केंद्रीय सरकार के यथास्थिति समूह "क", समूह "ख", समूह "ग" और समूह "घ" के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर लागू होते हैं।

अनुसूची

(देखें नियम 3)

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान
(क) अधिकारी		
1.	पंजीकार	रु. 12,000-375-16,500
2.	उप-पंजीकार	रु. 10,000-325-15,200
3.	सहायक पंजीकार	रु. 7,450-225-11,500
4.	निजी सचिव	रु. 6,500-200-10,500
(ख) अन्य कर्मचारी		
5.	वैयक्तिक सहायक	रु. 5,500-175-9,000
6.	ग्रधान लिपिक	रु. 5,500-175-9,000
7.	उच्च श्रेणी लिपिक	रु. 4,000-100-6,000
8.	अवर श्रेणी लिपिक	रु. 3,050-75-3,950-80-4,590
9.	बैंच-कलर्क	रु. 3,050-75-3,950-80-4,590
10.	समूह "घ"	रु. 2,610-60-2,910-65-3,300-70-4,000
		रु. 2,550-55-2,660-60-3,200
11.	ड्राइवर	रु. 3,050-75-3,950-80-4,590

[फा. सं. ए/60011/28/2005-प्रशा-III]

के. डी. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th January, 2006

G. S. R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (b) of Sub-section (2) of Section 28 of the National Tax Tribunal Act, 2005 the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the National Tax Tribunal (Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees) Rules, 2005;

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:— In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) “employees” means the employees of the Tribunal;

(b) “officers” means the officer of the Tribunal;

(c) “Tribunal” means the National Tax Tribunal established under Section 3 of the National Tax Tribunal Act, 2005.

3. Officers and other employees of the Tribunal.— The nature and categories of officers and employees of the Tribunal and the scales of pay attached thereto shall be as specified in the Schedule annexed hereto.

4. Conditions of service.— The conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal in the matter of pay, allowances, leave, joining time, joining time

pay, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group ‘A’ Group ‘B’, Group ‘C’ and Group ‘D’, as the case may be, and drawing the corresponding scales of pay and posted at the same station.

SCHEDULE

(See rule 3)

S. N.	Name of Post	Scale of pay
A. Officers		
1.	Registrar	Rs. 12,000-375-16,500
2.	Deputy Registrar	Rs. 10,000-325-15,200
3.	Assistant Registrar	Rs. 7,450-225-11,500
4.	Private Secretary	Rs. 6500-200-10,500
B. Other employees		
5.	Personal Assistant	Rs. 5,500-175-9000
6.	Head Clerk	Rs. 5,500-175-9000
7.	Upper Division Clerk	Rs. 4,000-100-6,000
8.	Lower Division Clerk	Rs. 3,050-75-3,950-80-4,590
9.	Bench Clerk	Rs. 3,050-75-3,950-80-4,590
10.	Group D	Rs. 2,610-60-2,910-65-3,300 70-4000 Rs. 2550-55-2660-60-3200
11.	Driver	Rs. 3050-75-3950-80-4590

[F. No. A/60011/28/2005-Admn. III]

K. D. SINGH, Addl. Secy.